



भा कृ अ प-राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
ICAR- NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH ON JUTE AND
ALLIED FIBRE TECHNOLOGY
12, रेजिन्ट पार्क, कोलकाता -700040
12, REGENT PARK, KOLKATA -700040



आवासीय क्वार्टर्स के आबंटन हेतु आवेदन फार्म
APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL QUARTERS

1	आवेदक का पूरा नाम Full Name (in block letters)	:			
2	पदनाम Designation	:			
3	विभाग / अनुभाग Division / Section	:			
4	सेवा की स्थिति (अस्थायी / स्थायी) Service Status (whether Temporary/Permanent)	:			
5	जन्म तिथि / Date of birth	:			
6	किस तारीख से सरकारी सेवा में लगातार नियोजित है Date from which continuously employed in Govt. Service	:			
7	लिंग Sex (Male/Female)	:			
8	वैवाहिक स्थिति Marital Status	:			
9	वर्तमान वेतन Present Pay	:			
10	आवेदन किए जा रहे आवास का प्रकार Indicate the type of house for which you are applying	:			
11	क्या आपकी पत्नी / पति का सरकारी क्वार्टर्स आबंटित किया गया है यदि हो उसका विवरण दें Whether your spouse has been allotted Govt. quarters. If so, the details thereof	:			
12	परिवार के सदस्यों का विवरण Details of the members of family including self				
संख्या Sl.No.	नाम Name	उम्र Age	संबंध Relationship	क्या कार्यरत है Profession If any	क्या आश्रित है या नहीं Whether depended or not
13	स्थायी / गहनगर का पता Permanent / Home Town Address :				

हस्ताक्षर Signature _____

घोषणा / DECLARATION

मैं समय समय पर यथासंशोधित यो आबंटन नियम और सरकारी आवास के आबंटन नियम 1958 की शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ ।

I agree to abide by the Allotment of Government Residences Rules, 1958 as amended from time to time or relevant allotment rules as applicable.

मुझे पात्र टाइप के आबंटित आवास को स्वीकार न करने या गलत सूचना देना उपभाडे में उठाने और प्रांगण के गलत इस्तेमाल के लिए लगाये गये दंड की जानकारी है ।

I am aware of the penalties, which can be imposed in the event of refusal of acceptance of allotment of accommodation the entitled type or furnishing of false information, subletting/misuse of the premises.

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं विभागाध्यक्ष के लिखित पूर्वअनुमोदन के अपने आवास का सम्पूर्ण यो आंशिक भाग उपभाडे में नहीं उठाऊंगा / उठाऊंगी । जब मुझे आवास की आवश्यकता नहीं होगी या जब मुझे इसकी पात्रता से रोका जाएगा तो उसको खाली करके उसका कब्जा संस्थान को सौंपना मेरी जिम्मेदारी होगी और जब तक खाली करके कब्जा नहीं दिया जाएगा तब तक आवास का किराया और अन्य भाडा मुझसे वसूल किया जाएगा ।

I undertake not to sublet the residence wholly or in part without the prior approval in writing of the Head of the Department. When the residence is no longer required by me or I cease to be entitled to it, I shall be responsible for handing over its vacant possession to the Institute and until such vacant possession is delivered, rent and other charge in respect of this residence shall be recoverable from me.

मैं आगे घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मेरी पत्नी या पति / बच्चे मेरी तैनाती के स्थान पर या उसके पास के किसी आवास स्थान का स्वामित्व नहीं है ।

I further declare that neither I nor my Spouse / Children owns a house at or nearer the station of my posting.

तारीख Date :

हस्ताक्षर Signature _____

पदनाम Designation _____